

**इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स
(दिल्ली विश्वविद्यालय)
INSTITUTE OF HOME ECONOMICS
(UNIVERSITY OF DELHI)**

एच.आर.ए. घोषणा पत्र / HRA DECLARATION FORM

1. मैं, / I, (नाम) (Name)
..... पदनाम और कार्यालय) निम्नानुसार घोषणा करता हूँ /
(Designation and office) declare as under:-

2. कि मैं / That I reside in the house located at
..... (पूरा डाक पता) पर स्थित मकान में रहता हूँ, जो मेरा /
मेरे पति/पत्नी/बच्चों/पिता/माता का है (जो लागू न हो उसे काट दें और यदि यह स्वयं के अलावा किसी अन्य का है तो
उक्त रिश्तेदार का नाम और पता दें जिससे यह संबंधित है) और मैं किसी को किराया नहीं देता हूँ। मैं (तारीख) से
लगातार इस मकान में रह रहा हूँ। / (Full postal address), which belongs to me / my spouse /
children / father / mother (strike off whichever is inapplicable and if it belong to any one other
than self give the name and address of the aforesaid relation to whom it belongs) and I do not
pay rent to anybody. I have been living in this house continuously from(date)

3. (i). मैं _____ (शहर/कस्बे का नाम) की नगरपालिका सीमा में स्थित एक किराए के मकान में रह
रहा हूँ और किराए पर कुछ खर्च का बीमा करा रहा हूँ/किराए में योगदान दे रहा हूँ। / I am living in a rented
house situated within municipal limits of _____ (Name of city/Town) and insuring
some expenditure on rent/contributing towards rent.

(ii). आवास का वह हिस्सा जिसके लिए मकान किराया भत्ता का दावा किया गया है, किराए पर नहीं दिया गया
है/किराए पर दिया गया है और प्राप्त होने वाला मासिक किराया _____ रुपये प्रति माह है। / The portion of
accommodation in respect of which house rent Allowance is claimed has not been sub-let/has
been sublet and the monthly rent which is received is Rs _____ p.m.

4. मैं _____ (शहर/कस्बे का नाम) की नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित एक मकान में रह रहा हूँ और इसका
स्वामित्व मेरे/मेरी पत्नी/पति/बच्चों/पिता/माता/हिंदू अविभाजित परिवार के पास है, जिसमें मैं सह-भागीदार हूँ और
मकान या संपत्ति कर या मकान के रखरखाव के लिए योगदान देता हूँ/देता हूँ। / I am living in a house situated
within municipal limits of _____ (Name of city/Town) and owned by me/my
wife/husband/children/father/mother/Hindu undivided family in which I am co-partner and pay
/contributing towards house or property tax or maintenance of the house.

5. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं राज्य/केंद्र सरकार द्वारा अपने माता-पिता (बच्चे) को आवंटित आवास को किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को किराए से मुक्त आवंटित स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगरपालिका बंदरगाह आदि में साझा नहीं कर रहा हूँ। / I certify that I am not sharing accommodation allotted to my parent (child) by the State/ Central Government, on autonomous public undertaking or semi- government organization such as municipality port etc. allotted rent free to another Government servant.

6. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पति/पत्नी/बच्चे/माता-पिता जो मेरे साथ आवास साझा कर रहे हैं, वे केन्द्र/राज्य सरकार/स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रमों या अर्ध-सरकारी संगठनों जैसे नगर पालिका, बंदरगाह ट्रस्ट आदि के कर्मचारी हैं और केन्द्र/राज्य सरकार, स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रमों या अर्ध-सरकारी संगठनों जैसे नगर पालिका, बंदरगाह ट्रस्ट आदि से मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

I certify that my husband/ wife/ children/ parents who is / are sharing accommodation with me are employees of the Central/ State Government / Autonomous public undertakings or Semi-Government organizations like municipality, port trust etc. is/ are not in receipt of house rent allowance from the Central/ State Government, autonomous public undertakings or SemiGovernment organizations like municipality, port trust etc.

7. मैं ऐसे सरकारी आवास में नहीं रह रहा हूँ जो किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित किया गया हो।
I am not living in government accommodation which has been allotted to another government servant.

8. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पत्नी/पति को केन्द्र/राज्य सरकार के संगठनों जैसे नगर पालिका, बंदरगाह ट्रस्ट आदि द्वारा उसी स्टेशन पर आवास आवंटित नहीं किया गया है। / I also certify that my wife/husband has not been allotted accommodation at the same station by the Central State Government organizations such as municipality, port trust etc.

स्थानीय पता Local Address _____ हस्ताक्षर /Signature: _____

_____ नाम: / Name: _____

_____ पदनाम / Designation: _____

दिनांक / Dated _____